

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 14.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम कैलसा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम डहकवाडा थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को मय 20 पक्वे फाइटर मार्का अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा पर्चा सट्टा की खाई बाडी कर रहे अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम सहदौला थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को मय पर्चा सट्टा, पेन व 2800/- रुपयें नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1. मोनू पुत्र हरकेश निवासी ग्राम कंजरबसेड़ा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा व 2. सुंदर पुत्र हरफूल निवासी ग्राम डींगरा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. आनंद पुत्र कर्ण सिंह निवासी ग्राम मायापुरी इस्लामनगर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा व 2. विक्रम पुत्र नत्थू निवासी ग्राम ढ्यौटी थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को मय 20-20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कुंवर सिंह मीणा पुत्र हरि सिंह निवासी देगवाह थाना वयाना जनपद भरतपुर राजस्थान हाल निवासी रेलवे कॉलोनी कोटद्वार जनपद पौडी उत्तराखंड को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित पुत्र रामचरन निवासी ग्राम शाहबाजपुर डोर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र अनीश निवासी मोहल्ला संभल अड्डा कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय चोरी किये हुये एक स्प्रे करने वाले पम्प सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 04 अभियुक्त 1. लव कुमार पुत्र नन्हे 2. जितेन्द्र पुत्र समरपाल 3. पवन पुत्र भूकन व 4. सतीश पुत्र प्रताप निवासीगण ग्राम सोहरका थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 52 पत्ते ताश व 335/- रुपयें नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अभियुक्त दौलत पुत्र लालमण निवासी ग्राम सूमाठेर थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 33 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना नौगावां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 12 व्यक्ति, थाना रजबपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 13 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।